



Staff Selection Commission
(Government Of India)

REGISTRATION NUMBER : WWW.QMATHS.IN

EXAM DATE : 20-January-2017

EXAM NAME : SSC Examination 2016

TOTAL MARKS : 200

CANDIDATE NAME : WWW.QMATHS.IN

EXAM START TIME : 16:15:00

EXAM DURATION : 01:15 Hrs

TOTAL NO OF QUESTIONS : 100

QID : 201 - Select the related word/letters/number from the given alternatives.

India : Tiger : : Nepal : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

भारत : बाघ : : नेपाल : ?

Options:

1) Peacock

मोर

2) Dolphin

डॉलफिन

3) Tiger

बाघ

4) Cow

गाय

Correct Answer: Cow

गाय

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 202 - Select the related word/letters/number from the given alternatives.

DANGEROUS : SUOREGNAD : : ? : RETHGUAD

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

DANGEROUS : SUOREGNAD : : ? : RETHGUAD

Options:

1) DAUGGARD

2) DAUGHTER

3) DORMANT

4) DAUGHTRE

Correct Answer: DAUGHTER

Candidate Answer: DORMANT

QID : 203 - Select the related word/letters/number from the given alternatives.

APPEAR : FUUJFW : : GRIND : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

APPEAR : FUUJFW : : GRIND : ?

Options:

1) LWNSI

2) ISNWL

3) LNWSI

4) LINWS

Correct Answer: LWNSI

Candidate Answer: LWNSI

QID : 204 - Select the related word/letters/number from the given alternatives.

9 : 738 :: 10 : ?

दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द/अक्षर/संख्या को चुनिए।

9 : 738 :: 10 : ?

Options:

- 1) 1200
- 2) 1001
- 3) 1100
- 4) 1010

Correct Answer: 1010

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 205 - select the odd word/letters/number/number pair from the given alternatives.

दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/अक्षर/संख्या/संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

- 1) Elephant
हाथी
- 2) Giraffe
जिराफ़
- 3) Cow
गाय
- 4) Hen
मुर्गी

Correct Answer: Hen

मुर्गी

Candidate Answer: Hen

मुर्गी

QID : 206 - select the odd word/letters/number/number pair from the given alternatives.

दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/अक्षर/संख्या/संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

- 1) AG
- 2) CE
- 3) BF
- 4) GF

Correct Answer: GF

Candidate Answer: AG

QID : 207 - select the odd word/letters/number/number pair from the given alternatives.

दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/अक्षर/संख्या/संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

- 1) 23498
- 2) 9494
- 3) 6946
- 4) 15578

Correct Answer: 6946

Candidate Answer: 15578

QID : 208 - select the odd word/letters/number/number pair from the given alternatives.

दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द/अक्षर/संख्या/संख्या युग्म को चुनिए।

Options:

1) 1541

2) 4096

3) 1331

4) 4913

Correct Answer: 4096

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 209 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

Jaipur, Rajasthan, India, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

जयपुर, राजस्थान, भारत, ?

Options:

1) Europe

यूरोप

2) Antarctica

अंटार्कटिका

3) Asia

एशिया

4) Australia

ऑस्ट्रेलिया

Correct Answer: Asia

एशिया

Candidate Answer: Asia

एशिया

QID : 210 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

YXW, TSR, NML, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

YXW, TSR, NML, ?

Options:

1) EFG

2) GFE

3) FEG

4) HGF

Correct Answer: GFE

Candidate Answer: HGF

QID : 211 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

B, D, H, P, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

B, D, H, P, ?

Options:

1) E

2) D

3) C

4) F

Correct Answer: F

Candidate Answer: F

QID : 212 - A series is given with one term missing. Choose the correct alternative from the given ones that will complete the series.

8, 27, 125, 343, ?

एक अनुक्रम दिया गया है, जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, जो अनुक्रम को पूरा करे।

8, 27, 125, 343, ?

Options:

- 1) 1000
- 2) 729
- 3) 1331
- 4) 1728

Correct Answer: 1331

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 213 - In the following question, two statements are given each followed by two conclusions I and II. You have to consider the statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statements.

Statements:

- (I) Sohan is a good sportsman.
- (II) Sportsmen are healthy.

Conclusion:

- (I) All healthy people are sportsmen. men.
- (II) Sohan is healthy.

निम्नलिखित प्रश्न में, दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष I और II निकाले गए हैं। आपको मानना है कि कथन सत्य है चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा/कौन से निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है/सकते हैं, यदि कोई हो।

कथन:

- (I) सोहन एक अच्छा खिलाड़ी है।
- (II) खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं।

निष्कर्ष:

- (I) सभी स्वस्थ व्यक्ति खिलाड़ी होते हैं।
- (II) सोहन स्वस्थ हैं।

Options:

- 1) Conclusion I follows

निष्कर्ष I सही है

- 2) Conclusion II follows

निष्कर्ष II सही है

- 3) Neither I nor II follows

न तो I और न ही II सही हैं

- 4) Both I and II follows

I और II दोनों सही हैं

Correct Answer: Neither I nor II follows

न तो I और न ही II सही हैं

Candidate Answer: Neither I nor II follows

न तो I और न ही II सही हैं

QID : 214 - Priya, Juhi, Amit, Nitin and Ram are five friends studying in the same class. Juhi scores higher marks than Ram but lesser than Priya. Nitin scores the highest and Ram scores the lowest marks. If Amit secures second rank out of the five, who stands at the third position?

प्रिया, जूही, अमित, नितिन और राम पांच दोस्त एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। जूही को राम से ज्यादा अंक मिले किन्तु प्रिया से कम अंक मिले। नितिन को सबसे अधिक और राम को सबसे कम अंक प्राप्त हुए हैं। यदि अमित को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो तीसरा स्थान किसे प्राप्त हुआ है?

Options:

- 1) Ram

राम

- 2) Juhi

जूही

- 3) Priya

प्रिया

- 4) Nitin

नितिन

Correct Answer: Priya

प्रिया

Candidate Answer: Ram

राम

QID : 215 - Arrange the given words in the sequence in which they occur in the dictionary.

- i. Garbage
- ii. Garrulous
- iii. Gabber
- iv. Garble

निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें।

- i. Garbage
- ii. Garrulous
- iii. Gabber
- iv. Garble

Options:

- 1) i, iii, iv, ii
- 2) iii, iv, i, ii
- 3) iii, i, iv, ii
- 4) i, iv, iii, ii

Correct Answer: iii, i, iv, ii

Candidate Answer: iii, i, iv, ii

QID : 216 - In a certain code language, "READ" is written as "18514". How is "RATE" written in that code language?

एक विशिष्ट कोड भाषा में "READ" को "18514" लिखा जाता है। उस कोड भाषा में "RATE" को कैसे लिखा जाएगा?

Options:

- 1) 181520
- 2) 181025
- 3) 181205
- 4) 181914

Correct Answer: 181205

Candidate Answer: 181520

QID : 217 -

In the following question, select the missing number from the given series.

निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए।

17	15	13
8	?	11
353	274	290

Options:

- 1) 4
- 2) 8
- 3) 9
- 4) 7

Correct Answer: 7

Candidate Answer: 8

QID : 218 - If "A" means "minus", "B" means "divided by", "C" means "plus" and "D" means "multiplied by", then $54 B 6 A 4 C 2 D 5 = ?$

यदि "A" का अर्थ "घटाना", "B" का अर्थ "भाग" है, "C" का अर्थ "जोड़" है और "D" का अर्थ "गुणा" है, तो $54 B 6 A 4 C 2 D 5 = ?$

Options:

- 1) 15
- 2) 21
- 3) 16
- 4) 18

Correct Answer: 15

Candidate Answer: 18

QID : 219 - Which set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it?

a_b_cc_a_b_c

अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा?

a_b_cc_a_b_c

Options:

- 1) ababc
- 2) aacbb
- 3) abcab
- 4) abbcc

Correct Answer: ababc

Candidate Answer: abcab

QID : 220 - Preetam cycles 6 km towards the south direction. He turns right to move 8 km, and again turns towards the north-east to move 10 km. From there, he moves 15 km on the left. How far is he from his original position?

प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 कि.मी. जाता है। वह दाएं मुड़कर 8 कि.मी. जाता है, फिर वह उत्तर-पूर्व दिशा में मुड़कर 10 कि.मी. जाता है। वहां से, वह 15 कि.मी. बाएं जाता है। वह अपने मूल स्थान से कितना दूर है?

Options:

- 1) 15 km
15 कि.मी.
- 2) 10 km
10 कि.मी.
- 3) 55 km
55 कि.मी.
- 4) 65 km
65 कि.मी.

Correct Answer: 15 km

15 कि.मी.

Candidate Answer: 10 km

10 कि.मी.

QID : 221 -

A word is represented by only one set of numbers as given in any one of the alternatives. The sets of numbers given in the alternatives are represented by two classes of alphabets as shown in the given two matrices. The columns and rows of Matrix-I are numbered from 0 to 4 and that of Matrix-II are numbered from 5 to 9. A letter from these matrices can be represented first by its row and next by its column, for example, 'D' can be represented by 01, 10, etc., and 'R' can be represented by 34, 22, etc. Similarly, you have to identify the set for the word DREAM.

एक शब्द केवल एक संख्या-समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या-समूह अक्षरों के दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि दिए गए दो आव्यूहों में है। आव्यूह-I के स्तम्भ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 है और आव्यूह-II की 5 से 9। इन आव्यूहों से एक अक्षर को पहले उसकी पंक्ति और बाद में स्तम्भ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए D को 10, 01। आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है, तथा R को 34, 22 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए शब्द DREAM के लिए समूह को पहचानना है।

Matrix-I

आव्यूह - I

	0	1	2	3	4
0	A	D	Q	M	R
1	D	T	W	R	W
2	S	H	R	B	E
3	F	R	E	V	R
4	R	E	G	C	F

Matrix-II

आव्यूह - II

	5	6	7	8	9
5	H	E	Z	A	T
6	E	G	A	D	Y
7	K	A	X	G	M
8	A	B	C	M	W
9	K	V	M	H	Q

Options:

1) 98, 40, 85, 19, 20

2) 01, 04, 42, 76, 98

3) 68, 34, 24, 00, 88

4) 11, 04, 24, 41, 88

Correct Answer: 68, 34, 24, 00, 88

Candidate Answer: 01, 04, 42, 76, 98

QID : 222 - Introducing a girl, Raju says, "She is the daughter of my grandfather's son's daughter". How is the girl related to Raju?

एक लड़की का परिचय कराते हुए राजू कहता है, "वह मेरे दादा के बेटे की बेटा की बेटा है।" वह लड़की राजू से कैसे संबंधित है?

Options:

1) Cousin

चचेरी बहन

2) Wife

पत्नी

3) Sister

बहन

4) Niece

भांजी

Correct Answer: Niece

भांजी


Candidate Answer: Sister

बहन

QID : 223 -


If a mirror is placed on the line MN, then which of the answer figures is the right image of the given figure?

यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिम्ब होगी?




Options:


1)




2)




3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 224 - Identify the diagram that best represents the relationship among the given classes.

Earth, Planets, Moon

वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है।


पृथ्वी, ग्रह, चन्द्रमा

Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer:



QID : 225 -

A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figures. From the given answer figures, indicate how it will appear when opened.

नीचे के प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा



Options:

1)



2)



3)



4)



Correct Answer:



Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 226 - Which world heritage site comprises of the Alai Darwaza Gate?

अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है?

Options:

1) Humayun's Tomb

हुमायूँ का मकबरा

2) Mahabodhi Temple Complex

महाबोधि मंदिर समूह

3) Qutub Minar

कुतुब मीनार

4) Red Fort Complex

लाल किला परिसर

Correct Answer: Qutub Minar

कुतुब मीनार

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 227 - Highest Civilian Honour received by Azim Premji is

अजीम प्रेमजी द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है

Options:

1) Padma Shri

पद्मश्री

2) Padma Bhushan

पद्म भूषण

3) Padma Vibhushan

पद्म विभूषण

4) Bharat Ratna

भारत रत्न

Correct Answer: Padma Vibhushan

पद्म विभूषण

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 228 - Which drug is used as an Anti-Diabetic drug?

किस दवा का एक मधुमेहरोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है?

Options:

- 1) Metformin
मेटफॉर्मिन
- 2) Zolpidem
ज़ोलपिडेम
- 3) Promethazine
प्रोमेथाज़ाईन
- 4) Hydralazine
हायड्रालेज़िन

Correct Answer: Metformin

मेटफॉर्मिन

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 229 - Photosynthesis takes place inside plant cells in _____.

प्रकाशसंश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित _____ में होता है।

Options:

- 1) Ribosomes
राइबोसोम्स
- 2) Chloroplasts
क्लोरोप्लास्ट
- 3) Nucleus
न्यूक्लियस
- 4) Mitochondria
माइटोकॉन्ड्रिया

Correct Answer: Chloroplasts

क्लोरोप्लास्ट

Candidate Answer: Mitochondria

माइटोकॉन्ड्रिया

QID : 230 - _____ is the cell organelle, in which the biochemical processes of respiration and energy production occur.

_____ वह कोशिका अंग है, जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएँ होती हैं।

Options:

- 1) Mitochondria
माइटोकॉन्ड्रिया
- 2) Chloroplast
क्लोरोप्लास्ट
- 3) Ribosomes
राइबोसोम्स
- 4) Nucleus
न्यूक्लियस

Correct Answer: Mitochondria

माइटोकॉन्ड्रिया

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 231 - LPG is a mixture of _____.

एलपीजी _____ का मिश्रण है।

Options:

- 1) methane and butane
मिथेन और ब्यूटेन
- 2) butane and propane
ब्यूटेन और प्रोपेन
- 3) methane and propane
मिथेन और प्रोपेन
- 4) ethane and propane
इथेन और प्रोपेन

Correct Answer: butane and propane

ब्यूटेन और प्रोपेन

Candidate Answer: butane and propane

ब्यूटेन और प्रोपेन

QID : 232 - What happens when one S and one P orbital is hybridized?

जब एक S और एक P कक्षीय को संकरित किया जाता है तब क्या होता है?

Options:

- 1) We get three orbitals in a plane
हमें एक समतल पर तीन कक्ष प्राप्त होते हैं।
- 2) We get two orbitals at 180 degrees
हमें 180 अंशों पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं।
- 3) We get two mutually perpendicular orbitals
हमें दो आपस में लंब कक्ष प्राप्त होते हैं।
- 4) We get four orbitals directed tetrahedrally
हमें टेट्राहेड्रल रूप से निर्देशित चार कक्ष प्राप्त होते हैं।

Correct Answer: We get two orbitals at 180 degrees
हमें 180 अंशों पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं।

Candidate Answer: We get three orbitals in a plane
हमें एक समतल पर तीन कक्ष प्राप्त होते हैं।

QID : 233 - A formal language used to express information or knowledge, often for use in computer system design is?

एक औपचारिक भाषा, जिसका जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है, वह है?

Options:

- 1) Command Language
कमांड लैंग्वेज
- 2) Machine Language
मशीन लैंग्वेज
- 3) Markup Language
मार्कअप लैंग्वेज
- 4) Modeling language
मॉडलिंग भाषा

Correct Answer: Modeling language
मॉडलिंग भाषा

Candidate Answer: Machine Language
मशीन लैंग्वेज

QID : 234 - Konkani is the official language of _____.

कोंकणी _____ की शासकीय भाषा है।

Options:

- 1) Chandigarh
चंडीगढ़
- 2) Dadra and Nagar Haveli
दादरा और नगर हवेली
- 3) Daman and Diu
दमन और दिउ
- 4) Delhi
दिल्ली

Correct Answer: Daman and Diu
दमन और दिउ

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 235 - If demand curve for racing cycles is $D = 80200 - 13P$ and supply curve is $S = 6200 + 12P$, What is the equilibrium Quantity?

यदि रेसिंग सायकिलों के लिए मांग वक्र है: $D = 80200 - 13P$ और आपूर्ति वक्र है: $S = 6200 + 12P$, तो संतुलन मात्रा ज्ञात करें।

Options:

- 1) 2960 units
2960 यूनिट
- 2) 31220 units
31220 यूनिट
- 3) 8750 units
8750 यूनिट
- 4) 41720 units
41720 यूनिट

Correct Answer: 41720 units
41720 यूनिट

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 236 - Match the characteristics with their market structure:

- (a) MC = Price
- (b) Firm will tend to set output so that it earns maximum profits.

विशेषताओं का उनकी बाज़ार संरचना के साथ मिलान करें:

- (a) MC = मूल्य
- (b) फर्म अधिकतम मुनाफा अर्जित करने के लिए उत्पादन निर्धारित करने की राह चलेगी

Options:

- 1) (a) Pure Competition, (b) Pure Monopoly
(a) विशुद्ध प्रतियोगिता, (b) विशुद्ध एकाधिकार
- 2) (a) Pure Monopoly, (b) Monopolistic Competition
(a) विशुद्ध एकाधिकार, (b) एकाधिकार प्रतियोगिता
- 3) (a) Oligopoly, (b) Monopolistic Competition
(a) अल्पाधिकार, (b) एकाधिकार प्रतियोगिता
- 4) (a) Pure Competition, (b) Oligopoly
(a) विशुद्ध प्रतियोगिता, (b) अल्पाधिकार

Correct Answer: (a) Pure Competition, (b) Pure Monopoly

(a) विशुद्ध प्रतियोगिता, (b) विशुद्ध एकाधिकार

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 237 - To which habitat is the turtle Petri adapted?

टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं?

Options:

- 1) Desert
मरुस्थल
- 2) Forest
वन
- 3) Sea
समुद्र
- 4) Marshes
दलदल

Correct Answer: Sea

समुद्र

Candidate Answer: Desert

मरुस्थल

QID : 238 - Bandipur National Park is in which state?

बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है?

Options:

- 1) Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश
- 2) Rajasthan
राजस्थान
- 3) Karnataka
कर्नाटक
- 4) Chhattisgarh
छत्तीसगढ़

Correct Answer: Karnataka

कर्नाटक

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 239 - Which is the first newspaper of India?

भारत का सबसे पहला समाचारपत्र कौनसा है?

Options:

- 1) Bombay Gazette
बॉम्बे गेजेट
- 2) Bengal Gazette
बंगाल गेजेट
- 3) Bombay Times
बॉम्बे टाइम्स
- 4) Hindustan Times
हिन्दुस्तान टाइम्स

Correct Answer: Bengal Gazette

बंगाल गेजेट

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 240 - Which state in India has the longest coastline?

भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है?

Options:

- 1) Kerala
केरल
- 2) Tamil Nadu
तमिलनाडु
- 3) Maharashtra
महाराष्ट्र
- 4) Gujarat
गुजरात

Correct Answer: Gujarat

गुजरात

Candidate Answer: Tamil Nadu

तमिलनाडु

QID : 241 - London is the Capital City of

लंदन _____ की राजधानी है।

Options:

- 1) Philippines
फिलीपिंस
- 2) Maldives
मालदीव
- 3) Spain
स्पेन
- 4) United Kingdom
यूनाइटेड किंगडम

Correct Answer: United Kingdom

यूनाइटेड किंगडम

Candidate Answer: United Kingdom

यूनाइटेड किंगडम

QID : 242 - Adolf Hitler was from _____.

एडोल्फ हिटलर _____ से था।

Options:

- 1) France
फ्रॉंस
- 2) Germany
जर्मनी
- 3) United Kingdom
यूनाइटेड किंगडम
- 4) Spain
स्पेन

Correct Answer: Germany

जर्मनी

Candidate Answer: Germany

जर्मनी

QID : 243 - Babur (1526–1530 AD) was the ruler of which dynasty?

बाबर (1526–1530 ईस्वी) किस वंश का शासक था?

Options:

1) Mughal

मुगल

2) Nanda

नंदा

3) Maurya

मौर्या

4) Haryanka

हर्योका

Correct Answer: Mughal

मुगल

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 244 - What did J. B. Dunlop invent?

जे बी डनलप ने किसका आविष्कार किया था?

Options:

1) Pneumatic rubber tire

न्यूमैटिक रबर टायर

2) Car Music System

कार म्यूजिक सिस्टम

3) Steering Wheel

स्टीयरिंग व्हील

4) Diesel Engine

डीजल इंजिन

Correct Answer: Pneumatic rubber tire

न्यूमैटिक रबर टायर

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 245 - When net torque is zero, _____ will be constant.

जब नेट टॉर्क शून्य है, तब _____ स्थिर हो जाएगा।

Options:

1) force

बल

2) angular momentum

कोणीय वेग

3) linear momentum

रेखीय वेग

4) acceleration

त्वरण

Correct Answer: angular momentum

कोणीय वेग

Candidate Answer: angular momentum

कोणीय वेग

QID : 246 - Newton's first law is also known as _____.

न्यूटन का पहला नियम _____ के रूप में भी जाना जाता है।

Options:

1) Law of friction

घर्षण का नियम

2) Law of moments

आघूर्ण का नियम

3) Law of Inertia

जड़त्व का नियम

4) Law of motion

गति का नियम

Correct Answer: Law of Inertia

जड़त्व का नियम

Candidate Answer: Law of motion

गति का नियम

QID : 247 - The tenure of the members of Lok Sabha is for how many years?

लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

Options:

- 1) 11
- 2) 9
- 3) 7
- 4) 5

Correct Answer: 5

Candidate Answer: 5

QID : 248 - Article 41 of the Indian Constitution "Right to work, to education and to public assistance in certain cases" deals with?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 "कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार" किससे संबंधित है?

Options:

- 1) the Union Government
केंद्र सरकार
- 2) the directive principles of state policy
राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत
- 3) the State Government
राज्य सरकार
- 4) the fundamental rights of the Indian Citizen
भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार

Correct Answer: the directive principles of state policy

राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत

Candidate Answer: the fundamental rights of the Indian Citizen

भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार

QID : 249 - Anju Bobby George is associated with which game?

अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल के साथ जुड़ी हुई हैं?

Options:

- 1) Shooting
निशानेबाजी
- 2) Athletics
एथलेटिक्स
- 3) Chess
शतरंज
- 4) Cricket
क्रिकेट

Correct Answer: Athletics

एथलेटिक्स

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 250 - Who wrote the book - "The test of my life"?

"द टेस्ट ऑफ माई लाइफ" पुस्तक के लेखक कौन हैं?

Options:

- 1) Yuvraj Singh
युवराज सिंह
- 2) Sachin Tendulkar
सचिन तेंदुलकर
- 3) Brian Lara
ब्रायन लारा
- 4) Adam Gilchrist
एडम गिलक्रिस्ट

Correct Answer: Yuvraj Singh

युवराज सिंह

Candidate Answer: Brian Lara

ब्रायन लारा

QID : 251 - The price of an article is cut by 31%, to restore to its original value, the new price must be increased by

एक वस्तु की कीमत में 31% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत से वृद्धि करनी चाहिए?

Options:

- 1) 66 percent
66 प्रतिशत
- 2) 44.93 percent
44.93 प्रतिशत
- 3) 39.76 percent
39.76 प्रतिशत
- 4) 82.5 percent
82.5 प्रतिशत

Correct Answer: 44.93 percent
44.93 प्रतिशत

Candidate Answer: 66 percent
66 प्रतिशत

QID : 252 - If $\cot 240^\circ = x$, then the value of x is

यदि $\cot 240^\circ = x$, तो x का क्या मान है?

Options:

- 1) -1
- 2) $-1/\sqrt{3}$
- 3) $1/\sqrt{3}$
- 4) $-\sqrt{3}$

Correct Answer: $1/\sqrt{3}$

Candidate Answer: $-1/\sqrt{3}$

QID : 253 - Akka can bake 100 cakes in 20 hours, Akka and Tai together can bake 75 cakes in 10 hours. How many cakes Tai can bake in 20 hours?

अक्का 20 घंटे में 100 केक बना सकती है, अक्का और ताई साथ मिलकर 10 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। ताई 20 घंटे में कितने केक बना सकती हैं?

Options:

- 1) 25
- 2) 50
- 3) 30
- 4) 75

Correct Answer: 50

Candidate Answer: 50

QID : 254 - Among three numbers, the first is twice the second and thrice the third. If the average of three numbers is 396, then what is the difference between the first and the third number?

तीन संख्याओं के बीच में, पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी और तीसरी संख्या से तीन गुनी है। यदि उन तीन संख्याओं का औसत 396 है, तो पहली और तीसरी संख्याओं के बीच कितना अंतर है?

Options:

- 1) 594
- 2) 448
- 3) 432
- 4) 453

Correct Answer: 432

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 255 - The point $Q(a,b)$ is first reflected in y -axis to Q_1 and Q_1 is reflected in x -axis to $(-5,3)$. The co-ordinates of point Q are

बिंदु $Q(a,b)$ प्रथम y -अक्ष पर Q_1 पर प्रतिबिंबित होता है और फिर Q_1 x -अक्ष पर $(-5,3)$ पर प्रतिबिंबित होता है। बिंदु Q के निर्देशांक क्या हैं?

Options:

- 1) $(-5,-3)$
- 2) $(5,3)$
- 3) $(-5,3)$
- 4) $(5,-3)$

Correct Answer: (5,-3)**Candidate Answer:** (5,3)

QID : 256 - Raghavendra sells a machine for Rs 43 lakhs at a loss. Had he sold it for Rs 52 lakh, his gain would have been 5 times the former loss. Find the cost price of the machine.

राघवेंद्र एक मशीन 43 लाख में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 52 लाख में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 5 गुना होता। मशीन का क्रय मूल्य प्राप्त करें।

Options:

1) Rs 50.5 lakhs

50.5 लाख रू

2) Rs 60.6 lakhs

60.6 लाख रू

3) Rs 44.5 lakhs

44.5 लाख रू

4) Rs 38.5 lakhs

38.5 लाख रू

Correct Answer: Rs 44.5 lakhs

44.5 लाख रू

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 257 - If $\sqrt{\sec^2 A - 1} = x$, then the value of x is

यदि $\sqrt{\sec^2 A - 1} = x$, तो x का क्या मान है?

Options:1) $\cot A$ 2) $\tan A$ 3) $\operatorname{cosec} A$ 4) $\cos A$ **Correct Answer:** $\tan A$ **Candidate Answer:** $\operatorname{cosec} A$

QID : 258 - To cover a distance of 234 km in 1.6 hours what should be the average speed of the car in meters/second?

1.6 घंटों में 234 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, मीटर / सेकंड में कार की औसत गति कितनी होनी चाहिए ?

Options:

1) 40.625 m/s

40.625 मीटर/सेकंड

2) 146.25 m/s

146.25 मीटर/सेकंड

3) 73.125 m/s

73.125 मीटर/सेकंड

4) 81.25 m/s

81.25 मीटर/सेकंड

Correct Answer: 40.625 m/s

40.625 मीटर/सेकंड

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 259 - What is the value of $\cos^2 A / (1 + \sin A)$?

$\cos^2 A / (1 + \sin A)$ का मान क्या है?

Options:1) $1 + \sin A$ 2) $1 - \sin A$ 3) $1 - \sec A$ 4) $1 + \sec A$ **Correct Answer:** $1 - \sin A$ **Candidate Answer:** $1 - \sec A$

QID : 260 - If $2x - 2(x - 2) < 5 - x > -2x + 2$; then the value of x is

यदि $2x - 2(x - 2) < 5 - x > -2x + 2$; तो x का क्या मान है?

Options:

- 1) 0
- 2) 2
- 3) 3
- 4) -4

Correct Answer: 0**Candidate Answer:** 3

QID : 261 - Marked price of an item is Rs 900. On purchase of 2 items discount is 16%, on purchase of 5 items discount is 44%. Raksha buys 7 items, what is the effective discount?

एक आइटम की चिह्नित कीमत 900 रुपये है। 2 आइटम की खरीद पर 16% छूट मिलती है, 5 आइटम की खरीद पर 44% छूट मिलती है। रक्षा 7 आइटम खरीदती है, तो उसे कितनी प्रभावी छूट मिलेगी?

Options:

- 1) 10 percent
10 प्रतिशत
- 2) 16 percent
16 प्रतिशत
- 3) 36 percent
36 प्रतिशत
- 4) 9.6 percent
9.6 प्रतिशत

Correct Answer: 36 percent

36 प्रतिशत

Candidate Answer: 36 percent

36 प्रतिशत

QID : 262 - If $(6x - 5) = (4x + 7)$, then the numerical value of $(x + 1)^3$ is

यदि $(6x - 5) = (4x + 7)$, फिर $(x + 1)^3$ का संख्यात्मक मान क्या है?

Options:

- 1) 216
- 2) 125
- 3) 64
- 4) 343

Correct Answer: 343**Candidate Answer:** 216

QID : 263 - The points A(3,-2), B(1,4) and C(-2,x) are collinear. What is the value of x?

बिंदु A(3,-2), B (1,4) और C (-2,x) समरेख हैं। x का मान क्या है?

Options:

- 1) 13
- 2) -2
- 3) 5
- 4) 3

Correct Answer: 13**Candidate Answer:** [NOT ANSWERED]

QID : 264 - In an army selection process, the ratio of selected to unselected was 5:1. If 100 less had applied and 20 less selected, the ratio of selected to unselected would have been 6:1. How many candidates had applied for the process?

एक आर्मी की भर्ती प्रक्रिया में, चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 था। यदि 100 कम ने आवेदन किया होता और 20 कम चयनित होते, तो चयनित और अचयनित का अनुपात 6:1 होता। कितने उम्मीदवारों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था?

Options:

- 1) 5520
- 2) 2760
- 3) 1380
- 4) 8280

Correct Answer: 2760

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 265 - If $xy = 48$ and $x^2 + y^2 = 100$, then $(x + y)$ is

यदि $xy = 48$ और $x^2 + y^2 = 100$, तो $(x + y)$ का क्या मान है?

Options:

- 1) 12
- 2) 16
- 3) 18
- 4) 14

Correct Answer: 14

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 266 - An angle is $\frac{1}{3}$ its supplementary angle. Find the measure of the angle?

एक कोण अपने अनुपूरक कोण का $\frac{1}{3}$ है। कोण का माप क्या है?

Options:

- 1) 45°
- 2) 90°
- 3) 135°
- 4) 22.5°

Correct Answer: 45°

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 267 - If $(\frac{5}{9}$ of x) - $(\frac{2}{5}$ of $\frac{9}{4}$) equals $-\frac{4}{5}$ then find x .

यदि $(x$ का $\frac{5}{9}) - (\frac{9}{4}$ का $\frac{2}{5})$ का परिणाम $-\frac{4}{5}$ हो, तो x को ज्ञात करें।

Options:

- 1) 0.18
- 2) 0.12
- 3) 2
- 4) 0.54

Correct Answer: 0.18

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 268 - In an isosceles trapezium _____.

एक समद्विबाहु समलम्ब में _____।

Options:

- 1) Diagonals are congruent
विकर्ण संगत होते हैं
- 2) Opposite sides are parallel
विपरीत भुजाएं होती हैं
- 3) Diagonals are bisectors of each other
विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं
- 4) Diagonals bisect opposite angles
विकर्ण विपरीत कोणों के समद्विभाजक होते हैं

Correct Answer: Diagonals are congruent

विकर्ण संगत होते हैं

Candidate Answer: Diagonals are bisectors of each other

विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं

QID : 269 - There is 40% increase in an amount in 10 years at simple interest. What will be the compound interest of Rs. 30000 after 3 years at the same rate?

एक राशि में 10 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। उसी दर पर 3 वर्षों में 30000 रुपयों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?

Options:

- 1) Rs 3745.92
3745.92 ₹
- 2) Rs 7491.84
7491.84 ₹
- 3) Rs 9364.8
9364.8 ₹
- 4) Rs 5618.88
5618.88 ₹

Correct Answer: Rs 3745.92

3745.92 ₹

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 270 - A number is greater than thrice its reciprocal by $26/3$. What is the number?

एक संख्या अपने व्युत्क्रम के तीन गुना से $26/3$ अधिक है। वह संख्या क्या है?

Options:

1) 10

2) 11

3) 9

4) 8

Correct Answer: 9

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 271 - The cross section of a canal is in the shape of an isosceles trapezium which is 4 m wide at the bottom and 5 m wide at the top. If the depth of the canal is 2 m and it is 120 m long, what is the maximum capacity of this canal?

एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समद्विबाहु समलम्ब के रूप में है जो तल पर 4 मी. चौड़ा और शीर्ष पर 5 मी. चौड़ा है। यदि नहर की गहराई 2 मी. है और वह 120 मी. लम्बी है, तो इस नहर की अधिकतम क्षमता क्या है?

Options:

1) 2160 cubic mts

2160 घन मी.

2) 3240 cubic mts

3240 घन मी.

3) 4320 cubic mts

4320 घन मी.

4) 1080 cubic mts

1080 घन मी.

Correct Answer: 1080 cubic mts

1080 घन मी.

Candidate Answer: 4320 cubic mts

4320 घन मी.

QID : 272 -

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

Division / STd श्रेणी/कक्षा	Boys लड़के	Girls लड़कियाँ
Division A / Standard 5 श्रेणी A/कक्षा 5	20	10
Division B / Standard 5 श्रेणी B/कक्षा 5	15	15
Division C / Standard 5 श्रेणी C/कक्षा 5	25	10
Division A / Standard 6 श्रेणी A/कक्षा 6	10	15
Division B/Standard 6 श्रेणी B/कक्षा 6	35	20
Division C / Standard 6 श्रेणी C/कक्षा 6	40	30

What is the ratio of boys to girls?

लड़कियों पर लड़कों का अनुपात क्या है?

Options:

1) 31 : 22

2) 20 : 29

3) 29 : 20

4) 22 : 31

Correct Answer: 29 : 20**Candidate Answer:** 31 : 22**QID : 273 -**

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

Marks अंक	Number of students छात्रों की संख्या
40 and above 40 और उस से उपर	18
30 and above 30 और उस से उपर	41
20 and above 20 और उस से उपर	69
10 and above 10 और उस से उपर	88
0 and above 0 और उस से उपर	100

How many students have scored marks 20 or more but less than 40?

कितने छात्रों ने 20 या उस से अधिक लेकिन 40 से कम अंक स्कोर किए हैं

Options:

1) 41

2) 69

3) 51

4) 110

Correct Answer: 51**Candidate Answer:** 110

QID : 274 -

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

Year वर्ष	GDP growth rate for the year (in %) वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि का दर (प्रतिशत में)
2011	-6
2012	7
2013	-7
2014	4
2015	3

If the GDP of the country was \$5 trillion at the end of 2013, what was it at the beginning of 2015?

यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2013 के अंत तक \$ 5 ट्रिलियन था, तो वह 2015 की शुरुआत में कितना था?

Options:

1) \$4.65 trillion

\$ 4.65 ट्रिलियन

2) \$5.15 trillion

\$ 5.15 ट्रिलियन

3) \$5.2 trillion

\$ 5.2 ट्रिलियन

4) \$5.35 trillion

\$ 5.35 ट्रिलियन

Correct Answer: \$5.2 trillion

\$ 5.2 ट्रिलियन

Candidate Answer: \$5.2 trillion

\$ 5.2 ट्रिलियन

QID : 275 -

Refer the below data table and answer the following Question.

नीचे दिये गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।

Subjects विषय	Marks scored प्राप्त अंक
English / अंग्रेज़ी	30
Hindi / हिंदी	50
Math / गणित	30
Science / विज्ञान	35
Arts / कला	30

Five points are to be deducted from this students average of marks scored because of poor attendance. What will be this student's net average marks scored?

किसी छात्र की अपर्याप्त उपस्थिति की वजह से उसके प्राप्त अंकों के औसत से पांच अंक घटाए जाने हैं। इस छात्र के प्राप्त कुल औसत अंक कितने होंगे?

Options:

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 30
- 4) 35

Correct Answer: 30

Candidate Answer: 25

QID : 276 - Select the synonym of

to theorize

Options:

- 1) to measure
- 2) to prove
- 3) to speculate
- 4) to calculate

Correct Answer: to speculate

Candidate Answer: to speculate

QID : 277 - Rearrange the parts of the sentence in correct order.

To write in plain vigorous language

P-one has to think fearlessly, and if

Q-one thinks fearlessly

R-one cannot be politically orthodox

Options:

- 1) QRP
- 2) PQR
- 3) RPQ
- 4) QPR

Correct Answer: PQR

Candidate Answer: PQR

QID : 278 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

No parents can _____ to see their ward waste their potential.

Options:

- 1) visualize
- 2) predict
- 3) envisage
- 4) afford

Correct Answer: afford

Candidate Answer: afford

QID : 279 - In the following question, a sentence has been given in Direct/Indirect speech. Out of the four alternatives suggested, select the one, which best express the same sentence in Indirect/Direct speech.

Abhay said, "I will go to Surat tomorrow".

Options:

- 1) Abhay said that he would go to Surat the next day.
- 2) Abhay said he would go to Surat tomorrow.
- 3) Abhay said he will be going to Surat the next day.
- 4) Abhay said that he would go to Surat tomorrow.

Correct Answer: Abhay said that he would go to Surat the next day.

Candidate Answer: Abhay said that he would go to Surat the next day.

QID : 280 - Improve the bracketed part of the sentence.

The **(needs)** of the hour was to reform the entire banking system.

Options:

- 1) need
- 2) needing
- 3) needings
- 4) no improvement

Correct Answer: need

Candidate Answer: need

QID : 281 - In the following question, a sentence has been given in Active/Passive voice. Out of four alternatives suggested, select the one, which best expresses the same sentence in Passive/Active voice.

They are going to watch a drama tomorrow.

Options:

- 1) A drama is going to be watched by them tomorrow.
- 2) A drama will be watched by them tomorrow.
- 3) A drama was going to be watched by them tomorrow.
- 4) Tomorrow the drama is going to be watched by them.

Correct Answer: A drama is going to be watched by them tomorrow.

Candidate Answer: [NOT ANSWERED]

QID : 282 - In the following question, the sentence given with blank to be filled in with an appropriate word. Select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate option.

The minister appealed to the public not to _____ to violence.

Options:

- 1) criticize
- 2) provoke
- 3) resort
- 4) influence

Correct Answer: resort

Candidate Answer: criticize

QID : 283 - Select the antonym of

ambushed

Options:

- 1) lurk
- 2) waylay
- 3) camouflage
- 4) exposed

Correct Answer: exposed

Candidate Answer: camouflage

QID : 284 - Rearrange the parts of the sentence in correct order.

**Elections are likely to be held
P-in 2017 once law and order
Q-time frame has been set
R-is restored though no**

Options:

- 1) PRQ
- 2) PQR
- 3) QPR
- 4) RPQ

Correct Answer: PRQ

Candidate Answer: QPR

QID : 285 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase.

wide in range or effect

Options:

- 1) sweeping
- 2) exaggerate
- 3) exclusive
- 4) superficial

Correct Answer: sweeping

Candidate Answer: exclusive

QID : 286 - Choose the word with the correct spelling.

Options:

- 1) toxicity
- 2) traducer
- 3) rubycund
- 4) impeeding

Correct Answer: traducer

Candidate Answer: toxicity

QID : 287 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which is the best substitute of the phrase.

to treat with cruelty or violence

Options:

- 1) wrong
- 2) abuse
- 3) pervert
- 4) fault

Correct Answer: abuse

Candidate Answer: pervert

QID : 288 - Improve the bracketed part of the sentence.

One minute they're all sweet (**but**) caring and the next minute they stab you in the back.

Options:

- 1) if
- 2) and
- 3) only
- 4) nor

Correct Answer: and

Candidate Answer: and

QID : 289 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

If I had remembered(A)/this it will have(B)/prevented some mistakes.(C)/No error(D)

Options:

- 1) A
- 2) B
- 3) C
- 4) D

Correct Answer: B

Candidate Answer: B

QID : 290 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.

Too many cooks spoil the broth

Options:

- 1) it is always better to do a job independently
- 2) asking many people for advice will cause confusion, and the decision will never be made
- 3) if too many people are involved in a task or activity, it will not be done well
- 4) food is always cooked better if one person cooks it

Correct Answer: if too many people are involved in a task or activity, it will not be done well

Candidate Answer: it is always better to do a job independently

QID : 291 - Select the word with the correct spelling.

Options:

- 1) litigate
- 2) diatrybe
- 3) cloyster
- 4) griemiest

Correct Answer: litigate

Candidate Answer: cloyster

QID : 292 - Select the antonym of

malignant

Options:

- 1) mortal
- 2) internecine
- 3) benign
- 4) lethal

Correct Answer: benign

Candidate Answer: internecine

QID : 293 - In the following question, some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select 'No Error'.

It was being hard to believe(A)/that my brother could be(B)/involved with anything so sinister.(C)/No error(D)

Options:

- 1) A
- 2) C
- 3) C
- 4) D

Correct Answer: A

Candidate Answer: C

QID : 294 - In the following question, out of the four alternatives, select the alternative which best expresses the meaning of the idiom/phrase.

Easy come, easy go

Options:

- 1) if you forcibly tie up a person in a relationship that person will run away
- 2) no matter what, one should never lose temper
- 3) every task is easy for a talented person
- 4) something acquired without effort may be lost without regret

Correct Answer: something acquired without effort may be lost without regret

Candidate Answer: every task is easy for a talented person

QID : 295 - Choose the synonym of

to thrash

Options:

- 1) to pin
- 2) to grasp
- 3) to pinch
- 4) to beat up

Correct Answer: to beat up

Candidate Answer: to beat up

QID : 296 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____. Faced with potentially new cyber _____, the danger to India's economic and national security is going _____ geometrical progression. To be forearmed, with _____ offensive cyber operations and _____ cyber security, is essential.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____

Options:

- 1) stronger
- 2) asymmetric
- 3) inclined
- 4) strange

Correct Answer: asymmetric

Candidate Answer: inclined

QID : 297 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____. Faced with potentially new cyber _____, the danger to India's economic and national security is going _____ geometrical progression. To be forearmed, with _____ offensive cyber operations and _____ cyber security, is essential.

Faced with potentially new cyber _____

Options:

- 1) onslaughts
- 2) attack
- 3) world
- 4) intrusions

Correct Answer: onslaughts

Candidate Answer: attack

QID : 298 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____. Faced with potentially new cyber _____, the danger to India's economic and national security is going _____ geometrical progression. To be forearmed, with _____ offensive cyber operations and _____ cyber security, is essential.

India's economic and national security is going _____ geometrical progression.

Options:

- 1) down as
- 2) down for
- 3) up on
- 4) up in

Correct Answer: up in

Candidate Answer: down as

QID : 299 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____. Faced with potentially new cyber _____, the danger to India's economic and national security is going _____ geometrical progression. To be forearmed, with _____ offensive cyber operations and _____ cyber security, is essential.

To be forearmed, with _____ offensive cyber operations

Options:

- 1) the two
- 2) both
- 3) either
- 4) neither

Correct Answer: both

Candidate Answer: both

QID : 300 - In the following passage, some of the words have been left out. Read the passage carefully and select the correct answer for the given blank out of the four alternatives.

The battle between attackers and the attacked is becoming still more _____. Faced with potentially new cyber _____, the danger to India's economic and national security is going _____ geometrical progression. To be forearmed, with _____ offensive cyber operations and _____ cyber security, is essential.

_____ cyber security, is essential.

Options:

- 1) more stronger
- 2) strongest
- 3) strengthened
- 4) strengthening

Correct Answer: strengthened

Candidate Answer: more stronger